

**CLASS 3**  
**SUBJECT - 2ND LANGUAGE HINDI**  
**CHAPTER - 3**  
**सजीव पौधे**  
**WORKSHEET**

**सार :-**

- सजीव पौधे कहानी एक आत्मकथा है, जिसमें पौधे ने अपनी कहानी खुद ही नेहा नाम की एक लड़की को सुनाई है।
- एक दिन शाम के समय जब नेहा अपने घर के आंगन में लगे गुलाब के पौधे से फूल तोड़ने लगी, तब पौधे ने उससे कहा यह उनके सोने का समय है, उन्हें मत तोड़ो।
- नेहा हैरान हो गई क्योंकि उसे तो यही पता था कि पौधे बेजान होते हैं।
- पर पौधे ने उसे समझाया कि वह भी मनुष्य की तरह खाते, पीते, सांस लेते, सोते और जागते हैं। तोड़े जाने पर मर भी जाते हैं।
- फिर पौधे ने बताया कि भोजन मिलते रहने के कारण वह मुरझाते नहीं हैं।
- पौधे ने अपने छह भागों के विषय में नेहा को बताया। जड़े, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल। फिर हर भाग किस प्रकार पौधे के लिए जरूरी है, यह भी बताया।
- नेहा अब पौधों के विषय में ज्यादा जानने के लिए इच्छुक हो रही थी।
- तब पौधे ने उसे बताया कि वह सांस कैसे लेते हैं और सूर्य की रोशनी से कैसे अपना भोजन तैयार करते हैं।
- वह हमारे लिए वायु को शुद्ध करते हैं। उनकी शाखाएं भी बहुत लाभकारी हैं। इसमें पक्षी अपने घोंसले बनाकर रहते हैं।
- फिर पौधे ने अपने फल और फूल की उपयोगिता बताई।
- इस तरह हमने देखा कि पौधे भी अन्य प्राणियों की तरह सजीव होते हैं। यह मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हैं, फिर भी अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य इन्हें नष्ट करता है।
- अंत में पौधे ने समझाया कि अगर पर्यावरण को बचा कर रखना है तो अधिक पेड़ लगाओ।

**Q1. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए:**

- a) उत्सुक
- b) छिद्र
- c) सजीव
- d) आश्चर्यचकित
- e) प्राकृतिक
- f) आश्रय

**Q2. वाक्य बनाओ:**

- a)संध्या
- b)आंगन
- c)लाभदायक

**EXERCISES FROM THE BACK OF THE LESSON**

**PAGE NO.17:**

**Q2. सोचे और बोलें:**

( i, ii, iii )

**Q3. लघु उत्तर लिखें:**

( i, ii, iii, iv )

**PAGE NO.18:**

**Q4. सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें:**

( i, ii, iii, iv, v )

**PAGE NO.18:**

**भाषा मंथन**

**Q2. उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखें:**

( i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x)

**PAGE NO.19:**

**सुलेख लिखिए**